

राजस्थान की नकली फैक्ट्री में पकड़ी गई हरियाणा मेड शराब, माफिया की तलाश

By Vijay | Updated: Tuesday, October 30, 2018, 16:01 [IST]

समाचार राज्यों से राजस्थान

अजमेर। आबकारी विभाग ने राजस्थान में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड मारकर भारी मात्रा में लिक्वर-मैटेरियल बरामद किया। मौके पर फैक्ट्री संचालित करने वाले 3 लोग पकड़े और माफिया की तलाश शुरू कर दी। अवैध शराब की इस फैक्ट्री के जरिए हरियाणा की शराब को राजस्थान के मार्का के साथ बेचा जाता था।



आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त कैलाशचंद लखारा ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी भगवत सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की रोकथाम के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है। इसी के तहत अजमेर के बालुपुरा रोड़ आदर्शनगर स्थित नमकीन व कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री पर जब दबिश दी गई तो यहां से राजस्थान ब्रांड शराब के रैपर, सील और ढक्कन बरामद हुए। लखारा ने बताया कि यहां मिले व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर किशनगढ़ स्थित राजारेडी में भी दबिश दी गई यहां से भी नकली शराब और रैपर, सील सहित अन्य माल जप्त किया गया। कार्रवाई में यह सामने आया कि एक बड़ा माफिया इस गिरोह को संचालित कर रहा है और हरियाणा से शराब लाकर उस पर राजस्थान का मार्का लगाकर आवंटित ठेकों को सप्लाई कर रहे हैं।

जेठाना के ठेके से नकली माल भी बरामद हुआ है। आबकारी अधिकारी भगवत सिंह ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों में ढाणी पुरोहितान निवासी महेन्द्र रावत, फैजाबाद और हाल बालुपुरा निवासी लल्लू उर्फ विरेन्द्र गुप्ता और फागी व हाल किशनगढ़ राजारेडी निवासी भगवान सिंह हैं। तीनों से गहन पूछताछ की जा रही है। नकली शराब सहित काफी माल भी जप्त किया गया है। माफिया का पता लगाया जा रहा है साथ ही जिन शराब के ठेकों पर यह शराब बेची जा रही है उनका आवंटन भी रद्द किया जाएगा।

Source: <https://hindi.oneindia.com/news/rajasthan/excise-department-raid-on-the-fake-liquor-manufacturing-factory-479094.html>